



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1932 (श0)
(सं0 पटना 811) पटना, बुधवार, 29 दिसम्बर 2010

सं0 प्रशा08/विविध-01-01/2002(अंश-1)-16185 (S)

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

3 दिसम्बर 2010

विषय—कॉस्ट शेयरिंग आधार पर बिहार राज्य के स्वामित्वाधीन अन्य पथों पर कुल 12 स्थानों पर अवस्थित लेवल क्रॉसिंग के बदले रेलवे द्वारा स्वीकृत रोड उपरी पुलों एवं पहुँच पथों का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा रेल मंत्रालय की एजेन्सी से करने हेतु (i) रेल मंत्रालय, भारत सरकार (ii) पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार एवं (iii) इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, नई दिल्ली के साथ त्रिपक्षीय(रेल मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार सरकार एवं कार्यान्वयन एजेन्सी) एकरारनामा प्रारूप का अनुमोदन बिहार सरकार की ओर से एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने हेतु सचिव, पथ निर्माण विभाग को प्राधिकृत करने एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लागू नियम के तहत स्वीकृत राशि के अतिरिक्त प्रबंधन शुल्क 7 प्रतिशत तथा स्थापना एवं सामान्य शुल्क 6.5 प्रतिशत की राशि रेलवे के माध्यम से इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड को भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक विभागीय ज्ञापांक सं0-8/ विविध-01-01/2002 1571(एस) अनु0, दि0 05 अप्रील 2005 द्वारा निर्गत संकल्प के अनुसार कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बिहार राज्य के स्वामित्वाधीन अन्य पथों पर कुल 11 स्थानों पर अवस्थित लेवल क्रॉसिंग के बदले रेलवे द्वारा स्वीकृत रोड उपरी पुलों एवं पहुँच पथों का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा रेल मंत्रालय की एजेन्सी से करने हेतु (i) रेल मंत्रालय, भारत सरकार (ii) पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार (iii) इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ त्रिपक्षीय एकरारनामा प्रारूप को अनुमोदित किया गया था,

एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने हेतु सचिव, पथ निर्माण विभाग को प्राधिकृत किया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लागू नियम के तहत स्वीकृत राशि के अतिरिक्त प्रबंधन शुल्क 7 प्रतिशत, स्थापना एवं सामान्य शुल्क 6.5 प्रतिशत की राशि रेलवे के माध्यम से इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड को भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

इसी क्रम में कॉस्ट शेयरिंग आधार पर बिहार राज्य के स्वामित्वाधीन अन्य पथों पर कुल 12 स्थानों (यथा संलग्न परिशिष्ट-1) पर अवस्थित लेवल क्रॉसिंग के बदले रेलवे द्वारा स्वीकृत रेलवे उपरी पुलों एवं पहुँच पथों का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा रेल मंत्रालय की एजेन्सी से कराने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

2. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

- (i) कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बिहार राज्य के स्वामित्वाधीन अन्य पथों पर कुल 12 स्थानों (यथा संलग्न परिशिष्ट-1) पर अवस्थित लेवल क्रॉसिंग के बदले रेलवे द्वारा स्वीकृत रोड उपरी पुलों एवं पहुँच पथों का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा रेल मंत्रालय की एजेन्सी से करने हेतु (i) रेल मंत्रालय, भारत सरकार (ii) पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार एवं (iii) इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, नई दिल्ली के साथ त्रिपक्षीय (रेल मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार सरकार एवं कार्यान्वयन एजेन्सी) एकरारनामा प्रारूप (यथा संलग्न) को अनुमोदित किया जाता है।
- (ii) बिहार सरकार की ओर से एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने हेतु सचिव, पथ निर्माण विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।
- (iii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-1571(एस) अनु०, दि० 05 अप्रैल 2005 में निहित शर्तों/ प्रक्रिया के अनुसार इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड को प्रबंधन शुल्क के रूप में परियोजना लागत का 7 प्रतिशत तथा स्थापना एवं सामान्य शुल्क के रूप में परियोजना लागत का 6.5 प्रतिशत की राशि भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
आनन्द किशोर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 811-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>